



प्रेस विज्ञप्ति

30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणाम

पुणे, 22 अक्टूबर, 2019 : बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल ने मंगलवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को प्रधान कार्यालय, पुणे में आयोजित बैठक में 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए बैंक के परिणामों का अनुमोदन किया। खाते बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

तिमाही लाभप्रदता

- बैंक का निवल लाभ 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के रु.27 करोड़ की तुलना में, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए बढ़कर रु.114.66 करोड़ रहा। निवल लाभ में यह वृद्धि निवल ब्याज आय में बढ़ोत्तरी, प्रावधान में कमी और संवर्धित आस्ति गुणवत्ता के कारण संभव हुआ।
- ब्याज आय 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 4.02% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए बढ़कर रु.2900.23 करोड़ रही।
- निवल ब्याज आय (एनआईआई) 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 7.03% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए बढ़कर रु.1073.37 करोड़ रही। 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए निवल ब्याज आय रु.1002.86 करोड़ थी।
- गैर-ब्याज आय 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए रु.395.65 करोड़ रही।
- बैंक का परिचालन लाभ 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु रु.751.78 करोड़ रहा।
- जमाराशियों की लागत 30.09.2018 को समाप्त तिमाही के 5.03% की तुलना में 30.09.2019 को समाप्त तिमाही के लिए घटकर 4.91% रही।
- बैंक का एनआईएम 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए 2.77% रहा।

अर्ध-वार्षिक लाभप्रदता

- 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची छमाही की रु.1092 करोड़ की हानि की तुलना में बैंक का निवल लाभ बढ़कर रु.195.78 करोड़ रहा।
- ब्याज आय 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची छमाही पर 4.50% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए बढ़कर रु.5672.87 करोड़ रही।
- निवल ब्याज आय (एनआईआई) 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची छमाही पर 11.22% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए बढ़कर रु.2070.20 करोड़ रही।
- गैर-ब्याज आय 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए पिछले वर्ष की तदनुसूची छमाही के आंकड़ों की तुलना में 8.49% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए बढ़कर रु.814.94 करोड़ रही।



- बैंक का परिचालन लाभ 30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही के लिए रु.1264.66 करोड़ की तुलना में 11.51% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए बढ़कर रु.1410.26 करोड़ रहा।
- निवल ब्याज मार्जिन 30.09.2018 को समाप्त छमाही के लिए 2.55% की तुलना में 30.09.2019 को समाप्त छमाही के लिए बढ़कर 2.68% रहा।

व्यवसाय

- बैंक का कुल व्यवसाय 30.09.2018 के रु.226068.86 करोड़ की तुलना में 30.09.2019 को बढ़कर रु.232846.74 करोड़ रहा।
- कुल जमाराशियां 30.09.2018 के रु.135525.94 करोड़ से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.5913.70 करोड़ (4.36%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 30.09.2019 को बढ़कर रु.141440.36 करोड़ रही।
- कासा जमाराशियां 30.09.2018 के रु.62674.82 करोड़ की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.5537.52 करोड़ [8.84%] की वृद्धि दर्ज करते हुए 30.09.2019 को रु.68212.34 करोड़ रही।
- कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का हिस्सा 30.09.2019 को 48.23% रहा।
- सकल अग्रिम 30.09.2018 के रु.90542.20 करोड़ की तुलना में 30.09.2019 को बढ़कर रु.91406.38 करोड़ रहे।

आस्ति गुणवत्ता

- सकल एनपीए 30.09.2018 के रु.16872.84 करोड़ (18.64%) की तुलना में 30.09.2019 को रु.15408.51 करोड़ (16.86%) रहे। 30.06.2019 को सकल एनपीए रु.16649.58 करोड़ (17.90%) थे।
- निवल एनपीए 30.09.2018 के रु.8742.86 करोड़ (10.61%) की तुलना में 30.09.2019 को रु.4406.56 करोड़ (5.48%) रहे। 31 मार्च, 2019 को बैंक के निवल एनपीए 5.52% और 30.06.2019 को निवल एनपीए रु.4856.27 करोड़ (5.98%) थे।
- बैंक ने 30 सितंबर, 2018 के 64.37% की तुलना में 30 सितंबर, 2019 को 82.71% का सुदृढ़ प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखा। 31.03.2019 को प्रावधान कवरेज अनुपात 81.49% और 30.06.2019 को यह 81.24% था।

पूंजी पर्याप्तता

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 30 सितंबर, 2018 के 9.87% की तुलना में 30 सितंबर, 2019 को बढ़कर 11.83% रहा। 30.06.2019 को यह 11.69% था।



- टियर I अनुपात 30.06.2019 के 9.71% से सुधरकर 30.09.2019 को 10.01% हो गया।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय, पुणे में 22.10.2019 को आयोजित प्रेस सम्मेलन के दौरान वित्तीय वर्ष 2019-20 की तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव.

फोटो में बाएं से दाएं – महाप्रबंधक श्री एन. रामबाबू, कार्यकारी निदेशक श्री ए. सी. राऊत, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव, कार्यकारी निदेशक श्री हेमन्त टम्टा और महाप्रबंधक श्री एन. एस. देशपांडे